

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2016—चैत्र 10, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 5279-93-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 मार्च 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१६

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-२ ) अधिनियम, २०१६

[ दिनांक ३० मार्च, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक ३० मार्च, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१६ है.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १७,०७,५३,९९,५३,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रु. एक लाख सत्तर हजार सात सौ तिरेपन करोड़ निम्नानुबे लाख तिरेपन हजार मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवार्ये और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
०१. सामान्य प्रशासन	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	१,०२,३३,३८,०३,०००	१,०२,३३,३८,०३,०००
	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	९१,०५,६३,१६,०००	९१,०५,६३,१६,०००
०२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय		राजस्व	३,७५,९५,९०,०००	४४,३०,६४,०००	४,२०,२६,५४,०००
		पूंजी	२९,५१,५१,०००	०	२९,५१,५१,०००
०३. पुलिस		राजस्व	५४,३०,१६,०००	०	५४,३०,१६,०००
		पूंजी	५१,३६,६२,८७,०००	१,५४,००,०००	५१,३८,१६,८७,०००
०४. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय		राजस्व	१,९७,०३,३५,०००	०	१,९७,०३,३५,०००
		पूंजी	४१,३५,८७,०००	२,००,०००	४१,३७,८७,०००
		पूंजी	२०,०१,०००	०	२०,०१,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५.	जेल	राजस्व ३,४२,३५,८२,०००	०	३,४२,३५,८२,०००
०६.	वित्त	राजस्व १,१३,०४,४३,२१,००० पूंजी १,७९,८१,०१,०००	१७,२८,४०,००० ०	१,१३,२१,७१,६१,००० १,७९,८१,०१,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व २६,०७,१९,६५,००० पूंजी १,०००	१०,६०,००० ०	२६,०७,३०,२५,००० १,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व १२,५५,७४,५३,००० पूंजी ८९,५५,००,०००	६,५५,११,००० ०	१२,६२,२९,६४,००० ८९,५५,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व ५७,६४,९४,००० पूंजी १७,२२,००,०००	५०,००० ०	५७,६५,४४,००० १७,२२,००,०००
१०.	वन	राजस्व १७,२४,७२,०९,००० पूंजी ४,४५,७३,००,०००	८०,००,००० ०	१७,२५,५२,०९,००० ४,४५,७३,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व १३,५७,२६,०५,००० पूंजी १२,२४,३६,०७,०००	७,०१,००० ०	१३,५७,३३,०६,००० १२,२४,३६,०७,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ६५,५१,०४,६०,००० पूंजी ९६,४०,४३,०५,०००	२,५०,००,००,००० ०	६८,०१,०४,६०,००० ९६,४०,४३,०५,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व १८,७७,८७,९१,००० पूंजी १,०००	१३,८५,००० ०	१८,७८,०१,७६,००० १,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व ७,६४,१८,३०,००० पूंजी २१,०९,२६,०००	१०,००,००० ०	७,६४,२८,३०,००० २१,०९,२६,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व १९,४५,७६,८२,००० पूंजी १,२३,४८,७५,०००	० ०	१९,४५,७६,८२,००० १,२३,४८,७५,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व ६८,९३,४५,००० पूंजी २०,००,०००	३,००,००० ०	६८,९६,४५,००० २०,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
१७. सहकारिता			
	राजस्व	६,७०,८७,५३,०००	१,५०,०००
	पूंजी	२,७६,६५,१९,०००	०
१८. श्रम			
	राजस्व	१,६९,४०,९७,०००	१,००,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	४३,२८,६५,९९,०००	६०,३०,०००
	पूंजी	५७,५२,२५,०००	०
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	४,८९,०३,३२,०००	१,००,००,०००
	पूंजी	८,५४,७४,१४,०००	०
२१. लोक सेवा प्रबंधन			
	राजस्व	१,२६,६२,५२,०००	०
	पूंजी	६,००,००,०००	०
२२. नगरीय विकास एवं पर्यावरण			
	राजस्व	२७,३४,९५,१९,०००	१,००,०००
	पूंजी	६,५९,७८,१८,०००	१०,००,००,०००
२३. जल संसाधन			
	राजस्व	८,९६,९६,१६,०००	१२,८५,०००
	पूंजी	४१,४७,३७,२८,०००	१,००,००,०००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
	राजस्व	१६,७८,९२,०६,०००	१०,००,०००
	पूंजी	२५,७५,९७,०१,०००	५०,००,००,०००
२५. खनिज साधन			
	राजस्व	३७,७१,९०,०००	६,३५,०५,५२,०००
२६. संस्कृति			
	राजस्व	१,३९,४२,९४,०००	०
	पूंजी	३५,३०,०३,०००	०
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व	७४,१५,७५,९६,०००	१,७१,०००
	पूंजी	३,३४,१३,३२,०००	०
२८. राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	८०,९१,२५,०००	३९,२८,०००
२९. विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	८,४८,७०,५१,०००	१,९६,३८,८५,०००
	पूंजी	५०,००,०००	०

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	५,८३,१०,२७,०००	३,००,०००
	पूँजी	१२,५०,१०,११,०००	०
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	२,८४,०२,३१,०००	०
३२. जनसंपर्क	राजस्व	२,४१,८२,४४,०००	०
३३. आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१७,५७,४१,७१,०००	१०,००,०००
३४. सामाजिक न्याय	राजस्व	२,४३,००,०७,०००	३,००,०००
३५. पुनर्वास	राजस्व	७७,२५,०००	५०,०००
३६. परिवहन	राजस्व	७९,६४,५३,०००	४,००,०००
	पूँजी	५२,७६,००,०००	०
३७. पर्यटन	राजस्व	१,४१,५६,२१,०००	०
	पूँजी	१,०५,००,००,०००	०
३८. आयुष	राजस्व	३,५९,९५,०५,०००	१०,००,०००
	पूँजी	४२,१७,६०,०००	०
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	११,३६,५२,७०,०००	१,६०,०००
	पूँजी	१,०९,८२,०१,०००	०
४०. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	२०,६८,८७,८१,०००	६०,००,०००
	पूँजी	१,२३,५०,००,०००	०
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	५७,५१,७६,९३,०००	०
	पूँजी	५२,७७,५५,८१,०००	१५,००,०००
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूँजी	११,१९,९७,१६,०००	०

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
४३. खेल और युवक कल्याण	राजस्व	७९,५०,२५,०००	२,०००
	पूंजी	३६,४५,००,०००	०
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	२२,१०,६२,९१,०००	२०,००,०००
	पूंजी	१,२०,२९,०१,०००	०
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	१,६०,७०,००,०००	०
	पूंजी	६,८७,०६,९६,०००	१०,००,०००
४६. विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	१,६९,३२,०८,०००	०
	पूंजी	५,००,००,०००	०
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	५,७१,१९,२४,०००	०
	पूंजी	९०,०२,६६,०००	०
४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	२८,३३,८१,०००	०
	पूंजी	१५,४९,५५,०८,०००	२०,००,०००
४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१,००,१३,१९,०००	१,०००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	५,०२,५२,१७,०००	१,००,०००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१,५४,६७,४५,०००	३०,०००
५२. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३८,६९,८५,७९,०००	०
	पूंजी	६४,८५,००,०००	०
५३. अनुसूचित जाति उपयोगना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	९,२८,५३,७१,०००	०
	पूंजी	२,०१,४६,५६,०००	०
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	९१,५०,०२,०००	०

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२५,८८,६९,५७,०००	१६,५१,०००	२५,८८,८६,०८,०००
	पूंजी	१,१८,२३,९६,०००	०	१,१८,२३,९६,०००
५६. ग्रामोद्योग	राजस्व	२,७१,०४,३१,०००	०	२,७१,०४,३१,०००
	पूंजी	५,१८,२४,०००	०	५,१८,२४,०००
५७. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूंजी	२३,०४,०२,०००	०	२३,०४,०२,०००
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	२३,९९,२४,६६,०००	०	२३,९९,२४,६६,०००
	पूंजी	३,००,००,०००	०	३,००,००,०००
५९. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	राजस्व	१,०००	०	१,०००
६०. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	१८,४८,००,०००	०	१८,४८,००,०००
	पूंजी	२,२६,०३,८४,०००	०	२,२६,०३,८४,०००
६१. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	१२,०००	०	१२,०००
	पूंजी	७२,००,१२,०००	०	७२,००,१२,०००
६२. पंचायत	राजस्व	१,८०,०२,१२,०००	२,४०,०००	१,८०,०४,५२,०००
६३. अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	२५,०१,८२,०००	०	२५,०१,८२,०००
६४. अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	४२,०१,७४,५५,०००	०	४२,०१,७४,५५,०००
	पूंजी	४३,९०,५२,१८,०००	०	४३,९०,५२,१८,०००
६५. विमानन	राजस्व	२२,२७,८२,०००	०	२२,२७,८२,०००
	पूंजी	२,०००	०	२,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	९,२९,८७,२२,०००	२०,०००	९,२९,८७,४२,०००
	पूँजी	३,००,०१,०००	०	३,००,०१,०००
६७. लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	६,५१,७३,१५,०००	१,३०,००,०००	६,५३,०३,१५,०००
	पूँजी	२,८६,९२,६२,०००	०	२,८६,९२,६२,०००
६८. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,१५,८५,९८,०००	०	१,१५,८५,९८,०००
६९. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	राजस्व	१६,९८,०७,०००	०	१६,९८,०७,०००
	पूँजी	१,७६,४४,०००	०	१,७६,४४,०००
७०. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	४,८१,५५,०००	०	४,८१,५५,०००
७१. सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	२,२९,५४,९३,०००	०	२,२९,५४,९३,०००
	पूँजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
७२. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	१,०५,२२,४९,०००	०	१,०५,२२,४९,०००
	पूँजी	५,५५,०२,०००	०	५,५५,०२,०००
७३. चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	६,४१,७३,३६,०००	०	६,४१,७३,३६,०००
	पूँजी	५८,११,०६,०००	०	५८,११,०६,०००
७४. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,७३,००,४२,५९,०००	०	१,७३,००,४२,५९,०००
	पूँजी	५०,०१,०००	०	५०,०१,०००
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	६५,७१,१२,११,०००	२,५३,०६,००,०००	६८,२४,१८,११,०००
	पूँजी	२०,४९,३५,०००	०	२०,४९,३५,०००



(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७६. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	१,७४,००,६०,०००	०	१,७४,००,६०,०००
	पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	योग { राजस्व :	११,३०,४६,६१,४०,०००	१,१५,६३,७३,६९,०००	१२,४६,१०,३५,०९,०००
	{ पूंजी :	३,६९,७६,५६,२८,०००	११,६७,०८,१६,०००	४,६१,४३,६४,४४,०००
	वृहद-योग :	१५,००,२३,१७,६८,०००	२,०७,३०,८१,८५,०००	१७,०७,५३,९९,५३,०००

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 5279-93-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 11 OF 2016

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 30<sup>th</sup> March, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30<sup>th</sup> March, 2016.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2016-2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2016.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of ₹ One Lakh Seventy Thousand Seven Hundred Fiftythree Crore Ninety Nine Lakh Fifty Three Thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2016-2017 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of ₹ 17,07,53,99,53,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2016-2017.

Appropriation.

3. The sum authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE  
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
..	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	1,02,33,38,03,000	1,02,33,38,03,000
..	Charged Appropriation-Public Debt.			
	Capital	0	91,05,63,16,000	91,05,63,16,000
01.	General Administration			
	Revenue	3,75,95,90,000	44,30,64,000	4,20,26,54,000
	Capital	29,51,51,000	0	29,51,51,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department			
	Revenue	54,30,16,000	0	54,30,16,000
03.	Police			
	Revenue	51,36,62,87,000	1,54,00,000	51,38,16,87,000
	Capital	1,97,03,35,000	0	1,97,03,35,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department			
	Revenue	41,35,87,000	2,00,000	41,37,87,000
	Capital	20,01,000	0	20,01,000
05.	Jail			
	Revenue	3,42,35,82,000	0	3,42,35,82,000
06.	Finance			
	Revenue	1,13,04,43,21,000	17,28,40,000	1,13,21,71,61,000
	Capital	1,79,81,01,000	0	1,79,81,01,000
07.	Commercial Tax			
	Revenue	26,07,19,65,000	10,60,000	26,07,30,25,000
	Capital	1,000	0	1,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
08.	Land Revenue and District Administration			
	Revenue	12,55,74,53,000	<b>6,55,11,000</b>	12,62,29,64,000
	Capital	89,55,00,000	<b>0</b>	89,55,00,000
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department			
	Revenue	57,64,94,000	<b>50,000</b>	57,65,44,000
	Capital	17,22,00,000	<b>0</b>	17,22,00,000
10.	Forest			
	Revenue	17,24,72,09,000	<b>80,00,000</b>	17,25,52,09,000
	Capital	4,45,73,00,000	<b>0</b>	4,45,73,00,000
11.	Commerce, Industry and Employment			
	Revenue	13,57,26,05,000	<b>7,01,000</b>	13,57,33,06,000
	Capital	12,24,36,07,000	<b>0</b>	12,24,36,07,000
12.	Energy			
	Revenue	65,51,04,60,000	<b>2,50,00,00,000</b>	68,01,04,60,000
	Capital	96,40,43,05,000	<b>0</b>	96,40,43,05,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development			
	Revenue	18,77,87,91,000	<b>13,85,000</b>	18,78,01,76,000
	Capital	1,000	<b>0</b>	1,000
14.	Animal Husbandry			
	Revenue	7,64,18,30,000	<b>10,00,000</b>	7,64,28,30,000
	Capital	21,09,26,000	<b>0</b>	21,09,26,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan			
	Revenue	19,45,76,82,000	<b>0</b>	19,45,76,82,000
	Capital	1,13,48,75,000	<b>0</b>	1,13,48,75,000
16.	Fisheries			
	Revenue	68,93,45,000	<b>3,00,000</b>	68,96,45,000
	Capital	20,00,000	<b>0</b>	20,00,000
17.	Co-operation			
	Revenue	6,70,87,53,000	<b>1,50,000</b>	6,70,89,03,000
	Capital	2,76,65,19,000	<b>0</b>	2,76,65,19,000
18.	Labour			
	Revenue	1,69,40,97,000	<b>1,00,000</b>	1,69,41,97,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	43,28,65,99,000	<b>60,30,000</b>	43,29,26,29,000
		Capital	57,52,25,000	<b>0</b>	57,52,25,000
20.	Public Health Engineering	Revenue	4,89,03,32,000	<b>1,00,00,000</b>	4,90,03,32,000
		Capital	8,54,74,14,000	<b>0</b>	8,54,74,14,000
21.	Public Services and Management	Revenue	1,26,62,52,000	<b>0</b>	1,26,62,52,000
		Capital	6,00,00,000	<b>0</b>	6,00,00,000
22.	Urban Development and Environment	Revenue	27,34,95,19,000	<b>1,00,000</b>	27,34,96,19,000
		Capital	6,59,78,18,000	<b>10,00,00,000</b>	6,69,78,18,000
23.	Water Resources Department	Revenue	8,96,96,16,000	<b>12,85,000</b>	8,97,09,01,000
		Capital	41,47,37,28,000	<b>1,00,00,000</b>	41,48,37,28,000
24.	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	16,78,92,06,000	<b>10,00,000</b>	16,79,02,06,000
		Capital	25,75,97,01,000	<b>50,00,00,000</b>	26,25,97,01,000
25.	Mineral Resources	Revenue	37,71,90,000	<b>6,35,05,52,000</b>	6,72,77,42,000
26.	Culture	Revenue	1,39,42,94,000	<b>0</b>	1,39,42,94,000
		Capital	35,30,03,000	<b>0</b>	35,30,03,000
27.	School Education (Primary Education)	Revenue	74,15,75,96,000	<b>1,71,000</b>	74,15,77,67,000
		Capital	3,34,13,32,000	<b>0</b>	3,34,13,32,000
28.	State Legislature	Revenue	80,91,25,000	<b>39,28,000</b>	81,30,53,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	8,48,70,51,000	<b>1,16,38,85,000</b>	9,65,09,36,000
		Capital	50,00,000	<b>0</b>	50,00,000
30.	Rural Development	Revenue	5,83,10,27,000	<b>3,00,000</b>	5,83,13,27,000
		Capital	12,50,10,11,000	<b>0</b>	12,50,10,11,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
31.	Planning Economics and Statistics	Revenue	2,84,02,31,000	0	2,84,02,31,000
32.	Public Relations	Revenue	2,41,82,44,000	0	2,41,82,44,000
33.	Tribal Welfare	Revenue	17,57,41,71,000	10,00,000	17,57,51,71,000
34.	Social Justice	Revenue	2,43,00,07,000	3,00,000	2,43,03,07,000
35.	Rehabilitation	Revenue	77,25,000	50,000	77,75,000
36.	Transport	Revenue	79,64,53,000	4,00,000	79,68,53,000
		Capital	52,76,00,000	0	52,76,00,000
37.	Tourism	Revenue	1,41,56,21,000	0	1,41,56,21,000
		Capital	1,05,00,00,000	0	1,05,00,00,000
38.	Ayoush	Revenue	3,59,95,05,000	10,00,000	3,60,05,05,000
		Capital	42,17,60,000	0	42,17,60,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	11,36,52,70,000	1,60,000	11,36,54,30,000
		Capital	1,09,82,01,000	0	1,09,82,01,000
40.	Other Expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	20,68,87,81,000	60,00,000	20,69,47,81,000
		Capital	1,23,50,00,000	0	1,23,50,00,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	57,51,76,93,000	0	57,51,76,93,000
		Capital	52,77,55,81,000	15,00,000	52,77,70,81,000
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	11,19,97,16,000	0	11,19,97,16,000
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	79,50,25,000	2,000	79,50,27,000
		Capital	36,45,00,000	0	36,45,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
44.	Higher Education			
	Revenue	22,10,62,91,000	<b>20,00,000</b>	22,10,82,91,000
	Capital	1,20,29,01,000	<b>0</b>	1,20,29,01,000
45.	Minor Irrigation Works			
	Revenue	1,60,70,00,000	<b>0</b>	1,60,70,00,000
	Capital	6,87,06,96,000	<b>10,00,000</b>	6,87,16,96,000
46.	Science and Technology			
	Revenue	1,69,32,08,000	<b>0</b>	1,69,32,08,000
	Capital	5,00,00,000	<b>0</b>	5,00,00,000
47.	Technical Education and Skill Development			
	Revenue	5,71,19,24,000	<b>0</b>	5,71,19,24,000
	Capital	90,02,66,000	<b>0</b>	90,02,66,000
48.	Narmada Valley Development			
	Revenue	28,33,81,000	<b>0</b>	28,33,81,000
	Capital	15,49,55,08,000	<b>20,00,000</b>	15,49,75,08,000
49.	Scheduled Caste Welfare			
	Revenue	1,00,13,19,000	<b>1,000</b>	1,00,13,20,000
50.	Horticulture and Food Processing			
	Revenue	5,02,52,17,000	<b>1,00,000</b>	5,02,53,17,000
51.	Religious Trusts and Endowments			
	Revenue	1,54,67,45,000	<b>30,000</b>	1,54,67,75,000
52.	Financial assistance to Triblal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	38,69,85,79,000	<b>0</b>	38,69,85,79,000
	Capital	64,85,00,000	<b>0</b>	64,85,00,000
53.	Financial assistance to Urban Bodies under Schedule Castes Sub Plan			
	Revenue	9,28,53,71,000	<b>0</b>	9,28,53,71,000
	Capital	2,01,46,56,000	<b>0</b>	2,01,46,56,000
54.	Agricultural Research and Education			
	Revenue	91,50,02,000	<b>0</b>	91,50,02,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
55.	Women and Child Development			
	Revenue	25,88,69,57,000	<b>16,51,000</b>	25,88,86,08,000
	Capital	1,18,23,96,000	<b>0</b>	1,18,23,96,000
56.	Rural Industry			
	Revenue	2,71,04,31,000	<b>0</b>	2,71,04,31,000
	Capital	5,18,24,000	<b>0</b>	5,18,24,000
57.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department			
	Capital	23,04,02,000	<b>0</b>	23,04,02,000
58.	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity			
	Revenue	23,99,24,66,000	<b>0</b>	23,99,24,66,000
	Capital	3,00,00,000	<b>0</b>	3,00,00,000
59.	Externally aided Projects Pertaining to Rural Development Department			
	Revenue	1,000	<b>0</b>	1,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes			
	Revenue	18,48,00,000	<b>0</b>	18,48,00,000
	Capital	2,26,03,84,000	<b>0</b>	2,26,03,84,000
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhan package			
	Revenue	12,000	<b>0</b>	12,000
	Capital	72,00,12,000	<b>0</b>	72,00,12,000
62.	Panchayat			
	Revenue	1,80,02,12,000	<b>2,40,000</b>	1,80,04,52,000
63.	Minority Welfare			
	Revenue	25,01,82,000	<b>0</b>	25,01,82,000
64.	Scheduled Castes Sub Plan			
	Revenue	42,01,74,55,000	<b>0</b>	42,01,74,55,000
	Capital	43,90,52,18,000	<b>0</b>	43,90,52,18,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
65.	Aviation			
	Revenue	22,27,82,000	0	22,27,82,000
	Capital	2,000	0	2,000
66.	Welfare of Backward Classes			
	Revenue	9,29,87,22,000	20,000	9,29,87,42,000
	Capital	3,00,01,000	0	3,00,01,000
67.	Public Works-Buildings			
	Revenue	6,51,73,15,000	1,30,00,000	6,53,03,15,000
	Capital	2,86,92,62,000	0	2,86,92,62,000
68.	Financial Assistance to Tribal Area Sub-Plan-Urban Bodies			
	Revenue	1,15,85,98,000	0	1,15,85,98,000
69.	Nomadic and Semi Nomadic Caste Welfare			
	Revenue	16,98,07,000	0	16,98,07,000
	Capital	1,76,44,000	0	1,76,44,000
70.	Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department			
	Revenue	4,81,55,000	0	4,81,55,000
71.	Expenditure pertaining to Shinmhast, 2016			
	Revenue	2,29,54,93,000	0	2,29,54,93,000
	Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
72.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation			
	Revenue	1,05,22,49,000	0	1,05,22,49,000
	Capital	5,55,02,000	0	5,55,02,000
73.	Medical Education Department			
	Revenue	6,41,73,36,000	0	6,41,73,36,000
	Capital	58,11,06,000	0	58,11,06,000
74.	Financial Assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	1,73,00,42,59,000	0	1,73,00,42,59,000
	Capital	50,01,000	0	50,01,000



(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
75. Financial Assistance to Urban bodies					
	Revenue	65,71,12,11,000	<b>2,53,06,00,000</b>	68,24,18,11,000	
	Capital	20,49,35,000	<b>0</b>	20,49,35,000	
76. New and Renewable Energy Sources					
	Revenue	1,74,00,60,000	<b>0</b>	1,74,00,60,000	
	Capital	10,00,00,000	<b>0</b>	10,00,00,000	
<b>Total</b> ...	{	Revenue :	11,30,46,61,40,000	<b>1,15,63,73,69,000</b>	12,46,10,35,09,000
		Capital :	3,69,76,56,28,000	<b>91,67,08,16,000</b>	4,61,43,64,44,000
	<b>Grand Total :</b>	15,00,23,17,68,000	<b>2,07,30,81,85,000</b>	17,07,53,99,53,000	